

COMSYN

Manufacturer & Exporter of : FIBC, PP Fabric, Woven Sacks, Bopp Bags, Tarpaulin & Flexible Packaging

COMSYN/BSE/2022-23

Date: 12th November, 2022

Online Filing at: www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager,
DCS-CRD
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street Mumbai- 400001(MH)

BSE Scrip ID: COMSYN BSE Scrip Code: 539986

Sub.: Submission of copy of newspaper clippings of Record Date and other details for Issue of Bonus Equity Shares

Dear Sir/Madam,p

Please find enclosed herewith copy of newspaper clippings of **revised Record Date** and other details for Issue of Bonus Equity Shares as prescribed and under the various provisions act and the Listing regulation, published in 'Free Press' (English Edition) and 'Choutha Sansar' (Vernacular Language-Hindi Edition) on Friday, 11th November, 2022.

You are requested to please take on record the aforesaid document for your reference and further needful.

Thanking You.

Yours Faithfully,

For, COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED

**CS SANDEEP PATEL
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER**

Encl.: Clippings of English & Hindi Newspaper

Commercial Syn Bags Limited

CIN: L25202MP1984PLC002669

Registered Office: Commercial House, 3-4, Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore -452001, M.P. INDIA

Ph. +91-731-2704007,4279525 Fax: +91-731-2704130 E-Mail: mails@comsyn.com, Visit at : www.Comsyn.com

COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED

CIN: L25202MP1984PLC002669

Regd. Office: Commercial House, 3-4, Jaora Compound, M.Y.H. Road, Indore (M.P.)-452001
 Contact No.: 0731-4279525, Email ID: investors@comsyn.com, Website: www.comsyn.com

REVISED RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS EQUITY SHARES

In accordance with the mail received from BSE Ltd. regarding revision of record date and Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 it is hereby informed that the Board of Directors revised Record date from Saturday, 19th November 2022 to Friday, 25th November, 2022 as the Record date for the purpose of ascertaining the eligibility of shareholders for issuance of Bonus shares in the ratio of 2 (Two) new equity bonus share of Rs. 10/- each for every 1 (One) existing fully paid equity share of Rs. 10/- each held by the Members/subject to the approval of shareholders in the ensuring 1/2022-23 Extra-ordinary General Meeting (EGM) to be held on 15th Day of November, 2022.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For, Commercial Syn Bags Limited
 Sd/-
 Sandeep Patel
 CS & Compliance Officer

Place: Indore
 Date: 10.11.2022

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile IDFC First Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)
 CIN: L65110TN2014PLC097972
 Registered Office - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031.
 Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile IDFC First Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited). The loans of the below mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPAs per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile IDFC First Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr. No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	10048345312 & 10051154060	Home Loan	1. Rajesh Palidar 2. Mania Palidar	29.10.2022	INR 91,83,837.00/-	All That Piece And Parcel Of Plot No. 108, Avadh Vaatika At Land Survey No. 123, 1233, 1232, 1229/1506, 1224/3, 1218, 1231, 1227, 1230 & 1228 At Village Rau, Tahsil & District Indore-452001, Plot Area 2160 Sq. Ft., And Bounded As: East: Colony Road West: Boundary Wall North: Plot No. 107 South: Plot No. 109

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile IDFC First Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc., within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile IDFC First Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Date: 11.11.2022
 Place: Indore

Sd/-
 Authorized Officer
 IDFC FIRST Bank Limited
 (erstwhile IDFC First Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) | CIN: L65110TN2014PLC097972
 Registered Office - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031.
 Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited). The loans of the below mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPAs per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr. No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	13850254	Home Loan	1. Vivek Kumar Jain H. 2. Swati Jain	22.10.2022	INR 50,94,163.99/-	All That Piece And Parcel Of Flat No. 305, Third Floor, Admesingh 1010 Sq. Ft. (Super Built-Up Area), Building Known As "Yash Residency", Constructed On Plot No. 10-E, Indore Development Authority Scheme No. 71-C, Indore (M.P.), And Bounded As: East - Plot No. 13A West - Common Passage, North - Flat No. 304, South - Plot No. 9-E

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc., within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Date: 11.11.2022
 Place: Indore

Sd/-
 Authorized Officer
 IDFC FIRST Bank Limited
 (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

GTL Infrastructure Limited

Registered Office: Global Vision ES II, 3rd Floor, MIDC, TTC Industrial Area, Mahape, Navi Mumbai- 400 710, Maharashtra, India.
 Tel: +91 22 6829 3500 | Fax: +91 6829 3545 | Website: www.gtilinfra.com | CIN-L74210MH2004PLC144367

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Particulars	₹ In Lakhs except Share Data						₹ In Lakhs	
	For the Quarter ended on September 30, 2022		For the Quarter ended on June 30, 2022		For the Quarter ended on September 30, 2021		As At September 30, 2022 (Unaudited)	As At March 31, 2022 (Audited)
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
INCOME :								
Revenue from Operations	35,992	36,024	36,379	72,016	72,541	1,46,273	6,329	6,647
Other Income	485	247	267	732	568	1,416	49,379	48,979
Total Income	36,477	36,271	36,643	72,748	73,109	1,47,689	55,209	55,416
EXPENSES :								
Infrastructure Operation & Maintenance Cost	20,563	20,874	22,609	41,437	44,554	88,061	77,664	80,650
Employee Benefits Expense	1,402	1,433	1,573	2,835	3,040	6,207	5,229	7,710
Finance Costs	19,553	19,027	18,048	38,580	39,980	73,388	7,820	8,061
Depreciation and Amortization Expenses	12,862	12,783	12,579	25,645	25,188	50,319	8,758	8,145
Balances Written Off (Net) and Provision for Trade Receivables and Advances	2,225	2,886	1,290	5,111	2,154	1,160	7,170	7,170
Exchange Differences (Net)	1,534	2,069	(294)	3,603	192	245	1,487	1,487
Other Expenses	10,120	5,158	1,647	15,278	4,385	9,410	5,229	7,710
Total Expenses	68,259	64,230	57,345	1,32,409	1,15,523	2,28,810	114	114
PROFIT/(LOSS) BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS AND TAX	(31,782)	(27,959)	(20,702)	(59,741)	(42,414)	(81,121)	54,419	56,261
Exceptional Items (Refer Note No. 8)	-	-	-	-	-	-	2,915	2,916
PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX	(31,782)	(27,959)	(20,702)	(59,741)	(42,414)	(1,47,467)	57,334	59,177
Tax Expenses	-	-	-	-	-	-	1,246	1,363
PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR	(31,782)	(27,959)	(20,702)	(59,741)	(42,414)	(1,47,467)	58,580	60,540
Other Comprehensive Income								
(A) Items that will not be reclassified to Profit or Loss								
Remeasurement of the defined benefit plans	24	(6)	7	18	(4)	66	3,833	4,027
(B) Items that will be reclassified to Profit or Loss								
Total Other Comprehensive Income	(24)	6	(7)	(18)	4	(66)	3,121	2,804
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR	(31,806)	(27,953)	(20,709)	(59,759)	(42,410)	(1,47,533)	61,701	63,344
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 each)	12,62,333	12,62,333	12,61,210	12,62,333	12,61,210	12,62,333	7,671	7,786
Other Equity excluding Revaluation Reserves							5,377	5,586
Earnings Per Equity Share of ₹ 10 each							7.92129	7.64216
Basic	(0.25)	(0.22)	(0.16)	(0.46)	(0.33)	(1.14)	5.23481	5.55458
Diluted	(0.25)	(0.22)	(0.16)	(0.46)	(0.33)	(1.14)		

Notes:
 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on November 10, 2022.
 2. The details of allotment of Equity Shares on exercise of option by FCCB Holders are as under:

Particulars	B1		B3		B3	
	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares	No. of Shares
As at July 1, 2022	32,903	58,711	12,257	21,43,25,535	38,24,35,234	7,98,40,382
Bonds converted during the Quarter	-	-	-	-	-	-
As at September 30, 2022	32,903	58,711	12,257	21,43,25,535	38,24,35,234	7,98,40,382
Bonds converted from October 1, 2022 till date	-	-	-	-	-	-
As at November 10, 2022	32,903	58,711	12,257	21,43,25,535	38,24,35,234	7,98,40,382

Series B1 & Series B3 bonds have become compulsorily convertible upon maturity date i.e. October 27, 2022. The Company is in the process of converting Series B1 and Series B3 bonds into equity shares of the Company and awaiting details from the respective bondholders for crediting equity shares to their respective accounts. Series B2 Bonds are redeemable and have matured on October 27, 2022. However, due to various developments adversely impacting the Company, the Company is not in position to redeem Series B2 Bonds on its maturity, unless and until implementation of Resolution Plan by its secured lenders either under the aegis of Insolvency & Bankruptcy Code or otherwise takes place.

3. The Hon'ble Supreme Court of India held that telecom towers to be exempt to Property Tax and States can levy property tax on the same. The matter being still sub-judice with respect of the component of Property Tax, non-receipt of demand notices for majority of the towers of the Company and the Company's right to recover property tax from certain owners. The Company is unable to quantify actual property tax amount payable. The provision will be considered as and when the matter is resolved. In respect of the above, the auditor's have issued modified reports on the results for the quarter and half year ended September 30, 2022 and also on the financial statements of earlier years.

4. IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL), Security Trustee of the behest of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited ("EARC") lenders has, without the consent of and information to the Company, till date have debited from the TRA account a sum of ₹ 85,100 Lakhs (₹ 21,500 Lakhs in Current Year & ₹ 63,600 Lakhs previous Year).

Additionally, during the previous quarter, ITSL has realized ₹ 2,010 lakhs (previous year ₹ 1,391 Lakhs) by way of sale of 1,79,80,693 equity shares (previous year 1,05,19,307 equity shares) of GTL Limited, pledged by Promoter Group Company.

In view of the above, the interest on borrowings has been provided after adjusting the aforesaid amounts in principal.

5. One of the remaining secured lenders, who don't assign its debt to EARC, allegedly claiming ₹ 64,638 Lakhs has filed proceedings before the National Company Law Tribunal (the "NCLT") under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") which is pending for decision.

6. Shut down of 14 telecom customers resulted into abandonment of more than 14,000 towers of the Company by them, making such towers unoccupied and loss of revenue towards the Infrastructure Provisioning Fees / Rental on such towers in respect of which the Company continues to pursue contractual claims of approx. ₹ 15,32,623 Lakhs from various customers. In view of above, the rental to landlords, taxes & other dues related to unoccupied towers remained unpaid, many of which are pass through payments for the Company. During the quarter and half year ended September 30, 2022, disputed landlords/tenants/micros/micros dismantled 371 sites and 558 sites respectively (259 sites during the year ended March 31, 2022) out of the above unoccupied sites. This has resulted into a loss (net) of ₹ 6,529 Lakhs and ₹ 12,148 Lakhs for the quarter and half year ended September 30, 2022 respectively (₹ 3,181 Lakhs for year ended March 31, 2022) which is included in other expenses in the above results. The Company continues to pursue its insurance claims and appropriate actions against the landlords/unknown microcosms/unknown migration to police.

7. The Company has substantial number of tenders in the last few years, due to various events which were beyond management control, such as shutdown of 14 telecom customers including Aircel Group, Reliance Communications and Tata Teleservices, business combination of Vodafone & Idea, Telenor & Airtel, etc. These developments have resulted in reduction in the revenue and earnings. Cash losses, erosion of Company's net worth, provision for impairment of property, plant and equipment. Considering the above events and pending debt restructuring, the principal and interest have become overdue. Further the Company has received notices of recall of loans from EARC and IDBI Bank claiming alleged default in terms of Master Restructuring Agreement dated December 31, 2011. The Company has strongly intimated the claims and responded to such notices appropriately. The above events, including the Hon'ble Supreme Court's decision dated December 6, 2021 dismissing all the proceedings filed by the Company, compelling the Company to wait for directions from the lenders/Courts on the way forward, which may include pursuing of the proceedings before the NCLT under IBC, cast significant doubt on the Company's ability to continue as a Going Concern.

However, considering the revised package approved by the Government of India for Telecom Sector, hike in mobile call & data tariffs by telecom operators and successful conclusion of 5G spectrum auction, mapping of sites for 5G rollout by the operators, the Company is optimistic about increased demand for its towers and thereby increase in the revenue and EBITDA levels. In addition to the above, various recourse optimization initiatives undertaken by the Company can lead to stabilization and revival. The Company does not have any intention to stop its operations or liquidate its assets. Therefore, the Company continues to prepare the books of account on Going Concern basis. Further, the Company also continues to pursue contractual claims of approx. ₹ 15,32,623 Lakhs from various customers in respect of premature exits by them in the lock in period.

8. Exceptional Items for the year ended March 31, 2022 represents the provision for impairment in respect of Property, Plant & Equipment. The Company will assess the impairment if any, at the year end.

9. Mr. M. N. Naik, Whole Time Director (WTD) of the Company resigned w.e.f. from September 22nd 2022. The requisite approvals towards managerial remuneration of ₹ 241.96 Lakhs paid to him during his tenure as WTD are still awaited from the lenders.

10. Statement of Assets & Liabilities

Sr. No.	Particulars	₹ In Lakhs	
		As At September 30, 2022 (Unaudited)	As At March 31, 2022 (Audited)
ASSETS			
1 Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment		3,62,752	3,95,389
(b) Right-of-use assets		58,097	60,122
(c) Investment Property		3,067	3,101
(d) Other Intangible Assets		12	3
(f) Financial Assets			
(i) Investments		8,953	8,876
(j) Others		8,092	6,236
(g) Other Non-current Taxes		4,204	4,182
(h) Other Non-current Assets		4,657	4,749
Total - Non-Current Assets			

* The Cash and Cash Equivalents balance includes ₹ 13,760 Lakhs (Previous year ₹ 10,910 Lakhs) in process of utilisation mainly in Cash Management System (CMS) Account which is used for Operational purpose.

11. Cash Flow Statement.

PARTICULARS	₹ In Lakhs	
	For the Half Year ended September 30, 2022 (Unaudited)	For the Half Year ended September 30, 2021 (Unaudited)
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss) before tax as per Statement of Profit and Loss	(59,741)	(42,414)
ADJUSTMENTS FOR		
Depreciation and amortization expenses	25,645	25,188
Loss on Dismantling/Sale/Retirement of Fixed Assets (Net)	11,711	1,817
Interest Income	(182)	(178)
Finance Costs	38,580	35,880
Extinguishment of liabilities	-	(10)
Foreign Exchange (Gain)/Loss (Net)	3,603	182
Difference in accounting of financial instruments at fair value through Profit & Loss	(1152)	(110)
Balances Written Off (Net of Provision written back)	(1,503)	-
Provision for Trade Receivables and Advances	7,014	2,154
Miscellaneous Income on Asset Retirement Obligation (ARO) & Lease	(266)	(60)
Prisput Rent amortization	79	80
Operating revenue on deposits	(200)	(333)
OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGE	34,208	21,796
ADJUSTMENTS FOR		
Trade and Other Receivables	(4,676)	(510)
Inventories	35	(96)
Trade and Other Payables	7,431	4,751
CASH GENERATED FROM OPERATIONS	26,998	26,001
Taxes paid/received (Net)	(3,401)	(2,596)
NET CASH FLOW GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES	23,597	23,405
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of PPE and Capital Works - Progress (CWIP)	(3,878)	(3,800)
Proceeds from disposal of PPE & CWIP	1,428	928
Interest Received	50	112
NET CASH FLOW USED IN INVESTING ACTIVITIES	(2,500)	(2,860)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Payment of Long-Term-Borrowings	(21,010)	-
Equity Contribution due to pledged Shares Involved by Lenders	2,010	-
Payment towards principal portion of lease liability	(3,136)	(2,639)
Payment towards interest portion of lease liability	(2,456)	(2,156)
Fixed Deposits with Banks pledged as Margin Money and others	63	(4)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	(24,529)	(4,799)
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(3,500)	15,746
Cash and Cash Equivalents (Opening Balance)	48,879	43,685
Cash and Cash Equivalents (Closing Balance)	45,379	59,431

12. The Company is predominantly in the business of providing "Telecom Towers" on shared basis and as such there are no separate reportable segments. The Company's operations are currently in India.
 13. The figures for the corresponding previous period year have been regrouped/rearranged wherever necessary, to make them comparable.

For GTL Infrastructure Limited

Place: Mumbai
 Date: November 10, 2022
 Vikas Anora
 Whole Time Director

Note: The Financial results for Quarter and Half year ended September 30, 2022 along with Independent Auditors Review Report is available on the websites of the stock exchange(s) at www.nseindia.com & www.bseindia.com and the Company at www.gtilinfra.com

Modified opinion of the Auditor -
 Attention is drawn to Note No. 3 to the statement, which inter-alia states that the Hon'ble Supreme Court of India held that "Mobile Telecommunication Tower" is a building and State can levy property tax on the same. Pending petitions of the Company before the appropriate Courts, non-receipt of demand notices for property tax in respect of majority of the "Telecommunication Towers" and also due to Company's right to recover such property tax amount from certain customers, the Company is unable to quantify the amount of property tax to be borne by it and accordingly has not made any provision for the same. We are unable to quantify the amount of the property tax, if any, to be accounted for and its consequential effects on the statement.

एक नजर

शराबबंदी पर उमा भारती के दृष्टि से गर्माई सियासत

भारत। शराबबंदी के मुद्दे पर अनामत पर कई तरह के प्रस्ताव... शराबबंदी का उद्देश्य है शराब के माध्यम से राजस्व... शराबबंदी के माध्यम से राजस्व... शराबबंदी के माध्यम से राजस्व...

समूह सिटी रोड पर तोड़फोड़ के मामलों के 6 गिरफ्तारी

भोपाल। गणनालय सिटी रोड पर गैरकानूनी कार्यों के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है... शराबबंदी के माध्यम से राजस्व... शराबबंदी के माध्यम से राजस्व...

फाइनैस कंपनी के ऑफिस में चोरों ने लग्गाई आग

भोपाल। राजधानी गणना के एमपी नगर सिटी का प्रसिद्ध इन्वैस्टमेंट और फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में चोरों ने आग लगा दी... शराबबंदी के माध्यम से राजस्व... शराबबंदी के माध्यम से राजस्व...


भोपाल से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो उपयात्रा को कमलनाथ ने दिवाड़ा हरी झंडी

बोले-संविधान और संस्कृति पर हो रहा हमला, इसलिये यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी

भोपाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुधवार को रात में मध्यप्रदेश में प्रवेश करेगी।

यात्रा के समय प्रदेश का माहौल रहे सकारात्मक-जयवर्धन

मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि कांग्रेस ने यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित रख सके।



लिये कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकाले हैं।

मप्र की खराब सड़कों पर सियासत मंत्री गोपाल भार्गव- बोले पैसे नहीं है कैसे सुधरेंगी सड़क

भोपाल। मध्यप्रदेश में खराब सड़कों को लेकर जनक जयकर प्रश्नकर्ता हो रही है। खराब सड़कों की जरूरत सड़कों पर सियासत जारी है।

वता में ग्यालियर को खराब सड़कों को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोर ने चर्चाओं का स्वागत किया था।

यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय अचानक बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण: पूर्व कुलपति फोरम

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व कुलपतियों के फोरम ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के देश में चल रहे क्षेत्रीय कार्यालयों को अचानक बंद करने को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

ये उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन राज्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आते थे और उन्हें प्रदेश के अंदर सड़क संचित और मरुख के पर पर कार्य करने का अवसर मिला।

प्रधान बाधित और मुकबिध परीक्षाओं को मिलेंगे विशेष शिक्षा

भोपाल। उच्च अख्ये के आदेशों के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने राज्य में चल रहे प्रवेशी परीक्षाओं में शामिल होने वाले मुकबिध और शारीरिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष शिक्षा देने का फैसला किया।



Advertisement for SATYA SHYAM TRADING LTD. with contact details and address in Indore.

Advertisement for WORTH PERIPHERALS LIMITED, featuring a table of financial results for the quarter and year ended 30th September 2022.

भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन सीएम करेंगे 16 को

विदिशा। आगामी 16 नवंबर को विदिशा जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन पुरानी जिला अस्पताल के सामने किया जाना है।

शिवराज सिंह चौहान सुधवार 16 नवम्बर को विदिशा प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर किए जाने वाले प्रबंधों का कलेक्टर उमाशंकर भागवत पुलिस अधीक्षक डॉ. मनिषा शुकुआर समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा आयोजन स्थल पर्यवेक्षण जैन कॉलेज परिसर में पहुंचकर जांचपत्रा लिया गया है।

गुरुनाथक देव महापुरुष व महान धर्म प्रवर्तक थे-मेवाड़ा

आज। देश के संस्थापक गुरुनाथक देव की जयंती की आस को हार्दिक बधाई देते हुए... गुरुनाथक देव की जयंती की आस को हार्दिक बधाई देते हुए...



Advertisement for COMMERCIAL SYN BAGS LIMITED, including financial statements and company information.

Advertisement for WORTH PERIPHERALS LIMITED, including financial statements and company information.